

# A simple, low interest & flexible loan for 's smallest businesses & nonprofits

आपके व्यवसाय के विकास के लिए वाशिंगटन का स्माल बिज़नेस फ्लेक्स फण्ड एक नया संसाधन है। वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स द्वारा समर्थित, यह फण्ड छोटे व्यवसायों और नॉन प्रॉफिट संगठनों को उन्नति करने के लिए आर्थिक सहायता पहुँचाने में मदद करता है।

एक छोटा व्यवसाय-अनुकूल ऋण -  
जिससे आप बड़े सपने देख सकें।

### स्माल बिज़नेस फ्लेक्स फण्ड

पेंडेमिक ने हमारे सभी समुदायों को प्रभावित किया है, परन्तु ये वाशिंगटन के छोटे व्यवसायों और नॉन प्रॉफिट संगठनों के लिए विशेष रूप से कठिन रहा है। यह ऋण योजना आपको कम ब्याज पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करा के आपको पहले से भी अधिक मजबूत बनाने में मदद करेगी।

### आवेदन करना सरल है

- 50 से कम कर्मचारी वार्षिक आय \$3 मिलियन से कम
- COVID-19 के कारण सीधे आर्थिक प्रभाव का अनुभव

### कम ब्याज पर ऋण

- \$150,000 तक उधार
- 3% - 4% ब्याज दर
- 60 महीने की ऋण अवधि
- पहले वर्ष में निशुल्क और केवल ब्याज का भुगतान

### ऋण का उपयोग लचीला है

- वेतन भुगतान
- यूटिलिटीज और किराया
- प्रचार और विज्ञापन
- भवन मरम्मत अथवा निर्माण
- अन्य व्यवसायिक खर्चे

जब छोटे व्यवसाय उन्नति करते हैं  
तब हमारे समुदाय मजबूत होते हैं।

चाहे चाइल्ड केयर सेंटर्स, स्वास्थ्य सेवा देने वाले, रेस्टोरेंट, स्थानीय फार्मर्स, अथवा सामुदायिक संगठन हो, सभी छोटे और स्थानीय संगठन महत्वपूर्ण सामग्री और सेवाएं प्रदान करते हैं, और साथ में

नौकरियां उपलब्ध कराते हैं जो कि हमारी राज्यव्यापी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने में मदद करती है।

60  
महीने की  
अवधि

4%  
छोटे  
व्यवसाय

3%  
नॉन प्रॉफिट

### स्माल बिज़नेस फ्लेक्स फण्ड

लचीले कैपिटल लोन्स  
कम ब्याज दर  
60 अथवा 72 महीने ऋण  
अदायगी समय

PPP और अन्य COVID-19 बहाली कार्यक्रम से अलग, स्माल बिज़नेस फ्लेक्स फण्ड एक क्षमा योग्य ऋण नहीं हैं। ऋणी को ऋण की पूरी राशि ब्याज सहित 5 वर्ष की अवधि में चुकानी होगी।

हम तैयार हैं, बात करते हैं!

### स्थानीय सामुदायिक ऋण दाता आपकी सफलता के लिए समर्पित

स्माल बिज़नेस फ्लेक्स फण्ड के नेटवर्क के स्थानीय,सामुदायिक ऋण दाता छोटे व्यवसायों और सामुदायिक संगठनों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

ऋण की पूरी कार्यवाही में यह विश्वसनीय सहायक आवेदन पत्र के हर कदम पर मदद करेंगे और अतिरिक्त सहायता सेवाएं प्रदान करेंगे।

## क्या अपेक्षा रखें

- रूचि रखने वाले उधार-कर्ता
- SmallBusinessFlexFund.org पर ऑनलाइन पोर्टल द्वारा पूर्व-आवेदन कर सकते हैं।
- पोर्टल के द्वारा उपयुक्त उधार-कर्ता को स्थानीय सामुदायिक ऋण दाता से मिलाया जाएगा।

## कैसे आवेदन करें

- SmallBusinessFlexFund.org पर जाएँ

अपने स्थानीय, सामुदायिक ऋण दाता से मिलिए, आज ही !



SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG

अस्वीकरण: सीमित फंडिंग उपलब्ध होने के कारण और अत्याधिक आवेदन पत्र आने की उम्मीद के कारण, ऐसा अनुमान है कि सभी आवेदन कर्ताओं को ऋण नहीं मिल पायेगा। आवेदन पत्रों की लगातार समीक्षा की जायेगी और वो कार्यक्रम के उद्देश्यों को समर्थित करने के हिसाब से संचालित किये जाएंगे। सामुदायिक ऋण दाता, कितने आवेदन पत्र आते हैं उस हिसाब से आवेदन पत्रों पर कार्यवाही में कितना समय लगेगा यह निश्चित कर पाएंगे। कृपया याद रखें आवेदन पत्र जमा करना आपकी योग्यता नहीं तय करता है और यह गारंटी नहीं देता है की आपका ऋण स्वीकृत हो जाएगा या मिल जाएगा। आपके आवेदन में अतिरिक्त जानकारी मांगी जायेगी जो की आपकी ऋण के लिए योग्यता तय करेगी। हमारी सलाह है कि आप जल्दी से जल्दी आवेदन जमा करें।